



RANA SUGARS LIMITED

Registered Office: SCO 49-50, Sector 8-C, Madhya Marg, Chandigarh - 160009
Telephone: (0172) 2540007, 2549217, 2541904, 2779565, Email: info@ranagroup.com
Website: www.ranasugars.com

CIN: L15322CH1991PLC011537 (Rs. in Lakhs)			
Extract of Statement of Un-audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022			
PARTICULARS	3 Months ended		Year ended
	30.06.2022 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1. Total Income from Operations (Net)	42735.86	37317.44	140029.15
2. Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	1978.96	5411.31	12519.26
3. Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	1978.96	5411.31	10901.91
4. Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	1562.63	5411.31	8521.49
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1562.63	5411.31	8590.65
6. Equity Share Capital	15353.95	15353.95	15353.95
7. Other Equity	0.00	0.00	29544.55
8. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - Before Exceptional Items			
- Basic	1.02	3.52	6.60
- Diluted	1.02	3.52	6.60
9. Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - After Exceptional Items			
- Basic	1.02	3.52	5.55
- Diluted	1.02	3.52	5.55

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as at Company's website www.ranasugars.com.

For Rana Sugars Limited
Sd/-

Place: Chandigarh
Date: 12.08.2022

Rana Inder Pratap Singh
Managing Director



LOVABLE LINGERIE LIMITED

CIN: L17110MH1987PLC044835
Registered Office: A-46, Road No.2, MIDC, Andheri (East), MIDC, Mumbai - 400 093. Website: www.lovableindia.in, Email: corporate@lovableindia.in

Extract of STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS for the Quarter ended 30th June, 2022

(₹ in lakhs)					
Sr. No.	Particulars	Current quarter ended 30.06.2022 (unaudited)	Previous quarter ended 31.03.2022 (audited)	Previous quarter ended 30.06.2021 (unaudited)	Year ended 31.03.2022 (audited)
1	Total income from operations (net)	3,662.19	2,526.22	1,294.32	10,201.67
2	Net Profit/ Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	569.26	3.35	(112.88)	679.11
3	Net Profit / Loss for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	569.26	3.35	(112.88)	679.11
4	Net Profit/ Loss for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	416.53	90.81	(100.40)	571.18
5	Total Comprehensive Income for the period	416.53	59.67	(100.40)	540.04
6	Equity Share Capital (FV of Rs.10/- each)	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-			15,764.61
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	Basic & Diluted	2.81	0.61	(0.68)	3.86

Note:

a) Note: a) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results as on 30th June, 2022 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the Quarterly and Annual Financial Results is available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and Company's website www.lovableindia.in

By order of the Board
For Lovable Lingerie Limited

Sd/-
L Vinay Reddy
Chairman & Managing Director
(DIN: 00202619)

Place : Mumbai
Date : August 12, 2022



W.S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

CIN: L29142TN1961PLC004568
Registered Office: 108, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai - 600 116

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022

(under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015) ₹ in Lakhs

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30th June 2022	3 Months ended 30th June 2022	Quarter Ended 30th June 2021	Quarter Ended 30th June 2022	3 Months ended 30th June 2022	Quarter Ended 30th June 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total income from operations (net)	23.15	23.15		23.15	23.15	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional/Extraordinary items)	(18.16)	(18.16)	(10.11)	(18.59)	(18.59)	(10.63)
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional/Extraordinary items)	1627.26	1627.26	(205.69)	1626.83	1626.83	(206.21)
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, after Exceptional/Extraordinary items)	1627.26	1627.26	(205.69)	1626.83	1626.83	(206.21)
5	Total Comprehensive income for the period {Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax)}	1627.26	1627.26	(205.69)	1626.83	1626.83	(206.21)
6	Equity Share Capital	3089.48	3089.48	2626.06	3089.48	3089.48	2626.06
7	Reserves(excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited Balance Sheet of the Previous year			(15051.20)			(15057.11)
8	Earnings Per Share (for continuing and discontinuing operations) (of ₹ 10/- each)						
a) Basic		5.19	5.19	(0.88)	5.19	5.19	(0.88)
b) Diluted		5.19	5.19	(0.88)	5.19	5.19	(0.88)

- The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30th June 2022 unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June 2022 are available on the Stock Exchange Websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.wsindustries.in in KVC)
- The above unaudited results were reviewed by the Audit Committee, approved and taken on record by the Board at its meeting held on 12th Aug. 2022, in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
- The Group is adopting Indian Accounting Standards (Ind AS) and this financial results for the Quarter ended 30th June 2022 are prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Ind AS prescribed under Section 133 of the companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder.
- Figures have been regrouped/reclassified wherever necessary, to conform to this period's classifications and as per amended schedule iii to the Companies Act.2013.

STANDALONE:

- For the current quarter under review, Chennai Insulator division and Visakhapatnam Insulator division are being considered as "Discontinued Operations". Turnkey Project Business Segment and newly added Infra Project Division are considered as "Continuing Operations". Accordingly adjustments are shown separately in the statement of profit and loss under Ind AS 105.
- The Company has considered Electro-porcelain products, Turnkey Project and Infra Project segment as the primary segment for disclosure.
- The Company clarifies that steps were already taken in Turnkey Project Business Unit from the last quarter of the previous financial year for the procurement of further materials and site related activities have been reactivated to execute and complete the various projects on hand. The Infra Division of the Company was started in June 2022 and the revenue from operations for the QE June 2022 is Rs.21.56 Lakhs. This is a new segment added to the Company. With the relevant expertise in the infrastructure business, the new management intends to extend the company's business into development of IT/ITES infrastructure on the property of the company and also leverage the expertise of the company in handling products/projects in the electrical and infrastructure industry. These steps will lead to the revival of activities of the company. Hence, the company continues to prepare its Accounts and the Statement of unaudited financial results on a 'going concern' basis of accounting.
- The Company has settled the Remaining Debt outstanding with respect to Visakhapatnam Unit with the Edelweiss Group on 13th April 2022 as full and final settlement with release of all claims outstanding against the Company. With the above Settlements, all the necessary charges with respect to the Vizag Unit were released. The waiver of loans extended to the company has been appropriately shown in the statement of profit and loss account for the quarter under review.
- The Company has completed the transfer of Vizag Unit/Plant/Undertaking to M/s. Winwin Speciality Insulators Ltd on 27th April 2022.
- During the quarter under review 46,34,224 equity shares were allotted on preferential basis to the new promoter group thereby the paid up equity shares increasing to 3,08,94,831 equity shares.
- Land at Porur Chennai has been classified as Investment Property wef FY 2022-2023.
- The Company has completed the monetization of land located at Pondicherry on 19th May 2022.

CONSOLIDATED:

- The Consolidated financial statements relate to W.S. Industries (India) Limited (the Parent Company), and its Subsidiary Company. The Parent Company with its subsidiary constitute the Group.
- The Subsidiary Company considered in the consolidated financial statements is WS Insulators Private Limited, whose country of incorporation are in India and the percentage of voting power by W.S. Industries (India) limited as on 30th June 2022 is 100%.
- The Group is not required to provide Segment Reporting under the criteria specified in IND AS 108.

Place: Chennai
Date : 12th August 2022

for W.S. INDUSTRIES (INDIA) LIMITED
CHAIRMAN

6

NEW DELHI | 13 AUGUST 2022 Weekend Business Standard

Reliance MediaWorks Financial Services Private Limited

(CIN : U74999MH2017PTC292285)

Registered Office: Manek Mahal, 6th Floor, 90 Veer Nariman Road, Mumbai MH 400020
Email: rmwinvestor@gmail.com Website: reliancemediaworks.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30,2022.

(Regulation 52(B), read with regulation 52(4))

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		June 30, 2022	March 31, 2022	June 30, 2021	March 31, 2022
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total income from Operations	1,040	47,02,81,894	1,00,000	47,03,81,894
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	(9,52,09,549)	10,05,07,464	(2,08,765)	10,00,96,782
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(9,52,09,549)	10,05,07,464	(2,08,765)	10,00,96,782
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(9,52,09,549)	10,05,07,464	(2,08,765)	10,00,96,782
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(9,52,09,549)	10,05,07,464	(2,08,765)	10,00,96,782
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- Each)	1,05,01,00,000	1,05,01,00,000	1,05,01,00,000	1,05,01,00,000
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(8,03,64,52,058)	(8,04,13,39,289)	(8,04,15,48,054)	(7,94,12,42,510)
8	Net worth	(6,98,63,52,058)	(6,99,12,39,289)	(6,99,14,48,054)	(6,89,11,42,510)
9	Outstanding Debt	6,06,31,56,284	6,06,31,56,286	6,07,31,56,284	6,06,31,56,286
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil
11	Debt Equity Ratio	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(0.88)
12	Earning Per Share (of ₹ 10/- each Fully paid-up) Basic & Diluted	(0.91)	0.96	(0.00)	0.95
13	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-
14	Debt Redemption Reserve (DRR)	-	-	-	-
15	Debt Service Coverage Ratio	-	-	-	-
16	Interest Service Coverage Ratio	-	-	-	-

Notes:

- The above unaudited statement of Financial results for the Quarter ended 30th June, 2022 have been reviewed and approved by the Board of Directors in the meeting held on 12th August, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out the above Financial Results and have issued Limited Review Report.
- These results have been prepared in accordance with the provisions of Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) as amended from time to time.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity at www.reliancemediaworks.com/investor-desk/Financial Results/Subsidiary
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange Bombay Stock Exchange (BSE) and can be accessed on www.reliancemediaworks.com/investor-desk/Financial Results/Subsidiary

For Reliance Mediaworks Financial Services Private Limited

Sd/-

Govindan Kaundar
Wholetime Director
Din: 094817171

PLACE: MUMBAI
DATE: 13.08.2022

How to Meet Decision Makers without an Appointment

Grow your business with Business Standard – the smart choice to reach those who matter!



71% readers in NCCS A1 and A2



12 English, 6 Hindi editions: 1000+ towns



6 lakh registered users,
12 million unique visitors per month



Print readers spend >15 min per day,
digital >5 min per visit



The most-read business medium
in top B-Schools



150+ events every year

Write to sales@bsmail.in now,
for a customised solution to your business requirements

Business Standard Insight Out

bsendia

bsendia

business-standard.com

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No : 17/2022-23/PHCKNRR/Re-tender)

Jal Jeevan Mission-Kannur District-Payam Grama Panchayath- Construction of service reservoirs, laying pumping main, gravity main, distribution system, providing FHTOs and road reformation works for PWD roads, Municipal roads and panchayath roads in Payam Panchayath areas.

EMD : Rs. 500000. Tender fee : Rs. 17700

Last Date for submitting Tender : 27.08.2022 02:00 pm

Phone : 04972705902, Website : www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in

Superintending Engineer
PH Circle, Kannur

KWA-JB-GL-6-667-2022-23



KKV AGRO POWERS LIMITED

Registered Office:Vivaaga Building, #637, Oppanakara Street, Coimbatore - 641 001 | CIN: L40108T22012PLC018332
E-mail: cs@kkvagropowers.com | Web: www.kkvagropowers.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF KKV AGRO POWERS LIMITED

Pursuant to Ministry of Corporate Affairs General Circular No.2/2022 dated 5th May 2022 and other circulars issued providing relaxation to companies in light of COVID19 pandemic situation, kindly take note that the Company has planned to convene the 10th Annual General Meeting (10th AGM) as an electronic AGM to be held on **Saturday, the 03rd day of September 2022 at 11.00 A.M.** through video conferencing (VC) or other approved audio visual means (OAVM) and further that Notice of 10th AGM, Annual Report and other reports/documents (AGM documents) will be sent through electronic mode only to shareholders whose email addresses are registered with the Depository Participant (DPs)/Registrar and Transfer Agent (RTA). No physical/hard copies of the above will be sent.

Shareholders holding shares in demat mode, not registered their email address and mobile no. with DP, are immediately requested to register with your DP. Detailed instructions to Members for joining 10th AGM through VC/OAVM and casting their vote by remote e-voting or e-voting system during 10th AGM are set-out in the Notice of the 10th AGM.

The details as per Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 are available in the AGM notice and its notes. Soft copy of AGM documents will also be available on the websites www.kkvagropowers.com, and National Stock Exchange of India Ltd: www.nseindia.com.

The Company has fixed **27.08.2022** as the Record date for determining the entitlement of the members whose names appear in the Register of Members to the final dividend for the Financial Year ending on March 31, 2022.

Also, as dividend income is taxable in the hands of shareholders effective 1st April 2021, please update your residential status, PAN & category as per Income-tax Act with your DP or with RTA at info@skdc-consultants.com if you hold shares in physical form.

For KKV AGRO POWERS LIMITED

Sd/-

Place: Coimbatore
Date: 12.08.2022

T.K Chandiran
Managing Director

Genus Power Infrastructures Limited

Genus
energizing lives

(Registered Office: G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh)
(Tel.: +91-120-2581999; E-mail: cs@genus.in; Web: www.genuspowers.com; CIN: L51909UP1992PLC051987)

Notice of the 30th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information
Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus Power Infrastructures Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 08, 2022 at 3:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI, in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of AGM by following the procedure mentioned in the Notice of AGM.

In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 have been sent on August 12, 2022 to all those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA"/Depository Participant(s)). The aforesaid documents are also available on website of the Company at www.genuspowers.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. September 01, 2022 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting and joining the AGM are provided in the Notice of AGM. In this regard, the Members are hereby informed that:

- The remote e-voting shall commence on Monday, September 05, 2022 at 9.00 am (IST) and end on Wednesday, September 07, 2022 at 5.00 pm (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. (IST) on September 07, 2022.
- It is hereby clarified that it is not mandatory for a member to vote using the remote e-voting facility. Members have also an option to cast their vote through e-voting by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. September 01, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person, who is not a Member as on the said cut-off date, should treat this Notice or Notice of AGM for information purposes only.
- Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM by following the procedures/instructions, mentioned in the Notice of the AGM.
- Members, who have not registered their Email IDs or those who have acquired shares after the dispatch of the Notice of the AGM including the Annual Report and who continue holding shares as on the cut-off date, i.e. Thursday, September 01, 2022, can obtain/generate the user ID and password as per the instructions provided in the Notice of the AGM for e-voting. However, if a person is already registered with CDSL/NSDL for e-voting, then existing login ID and password can be used for casting vote. Member can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her depository participant registered with NSDL/CDSL for e-voting facility. Members are advised to update their mobile number and email-id in their demat accounts in order to access e-voting facility.
- Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.
- Member, participating through the VC/OAVM facility, shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- If you have any queries or issues regarding attending AGM and e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33.
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33

2 कंपनी समाचार

संक्षेप में

डाबर इंडिया के नए

चेयरमैन होंगे मोहित बर्मन

डाबर इंडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जो 10 अगस्त से प्रभावी हुआ। बोर्ड ने मोहित बर्मन को पांच साल के लिए कंपनी का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है, जो 11 अगस्त से प्रभावी हुआ। बर्मन को गैर-कार्यकारी वाइस चेयरमैन था। बोर्ड ने साकेत बर्मन को निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है, जो पांच साल के लिए है और यह 11 अगस्त से प्रभावी हुआ।

बीएस

गोल्डन लाइफ एग्रो की दो संपत्तियों की नीलामी

बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कहा कि वह गोल्डन लाइफ एग्रो इंडिया लिमिटेड से निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए उसकी दो संपत्तियों की आठ सितंबर को नीलामी करेगा। सेबी ने एक नोटिस में कहा कि नीलामी के लिए रखी गई ये दोनों संपत्तियां पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। इनमें से एक भूखंड है जबकि दूसरी संपत्ति एक दोमंजिली इमारत है। सेबी ने इन संपत्तियों के लिए सम्मिलित आरक्षित मूल्य आठ करोड़ रुपये रखा है। इनकी बिक्री के लिए आठ सितंबर को ऑनलाइन बोलियां लगाई जा सकेंगी। इसके पहले भी सेबी गोल्डन लाइफ एग्रो की कुछ संपत्तियों की नीलामी कर चुका है। इस कंपनी ने निजी आवंटन के जरिये गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी कर 24,९15 निवेशकों से करीब 11.3 करोड़ रुपये जुटाए थे।

भाषा

सोना 90 रुपये, चांदी

374 रुपये कमजोर

वैश्विक बाजारों में नरम रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 90 रुपया गिरकर 52,९15 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिन्क्योरीटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु का भाव 53,005 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। इस दौरान चांदी की कीमत भी 374 रुपये के नुकसान के साथ 59,166 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

भाषा

लॉकर नं.	नाम	पता	रु में कुल देय बिक्रिया	से देय क्रियया
000488	अश्विनी कुमार		21,240.00	10.06.2014
000682	कनन शर्मा		37,170.00	31.10.2001

उत्त लॉकर धारकों को पंजीकृत डाक से शाखा द्वारा सूचना भेजी जा चुकी है जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, लॉकर धारकों या लॉकर धारकों के कानूनी वारिसों से इस सूचना के 15 (पंद्रह दिनों) के भीतर शाखा से संपर्क करने व लॉकर का बकाया पूरे बिलिए पर भुगतान करने का अनुरोध है। देयों के गैर-भुगतान के मामले में, लॉकर को कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाएगा

फॉर्म-जी अभिलेखि की अभिव्यक्ति को लिए आमंत्रण (विद्यता और वीरुष अवस्था (कांरपोरेट अभिव्यक्ति के लिए विद्यता समाधान प्रक्रिया) विनियमनसले, 2016 के विनियम 369(1) के अधीन)	
संबलिखित विवरण	
1. कांरपोरेट देनदार का नाम	मैसर्स प्रॉको हिलियन लिमिटेड
2. कांरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19-12-1995
3. उस अधीनशी का नाम, जिसके अधीन कांरपोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4. कांरपोरेट देनदार की कांरपोरेट पहचान संख्या /सीमित देता पहचान संख्या	U74899DL1995PLC074764
5. कांरपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रचान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	आरजेड-142, यूड विषुणु गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110018
6. कांरपोरेट देनदार के संबंध में विद्यता प्रारंभ होने की तिथि	09-05-2022
7. अभिलेखि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की तिथि	13-08-2022
8. कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन रिजल्यूशन आवेदको के लिए पावता निगमित/लिखित पर उल्लेख है:	संरक्षण अर्पण पावता माननड के लिए न्यूनतम पावता माननड (अकेले, संरक्षण रूप से या साथ ही) संरक्षण प्रेक्षर के साथ संरक्षण प्रेक्षर ("आरपी") तक पहुँचने के लिए है: 1. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए शीघी कांरपोरेटस के लिए न्यूनतम ऑडिटेड वित्तीय विवरण के अनुसार वित्तमान नेट - नई 5 करोड रुपये और प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा 2. वित्तीय संस्थाओं साँल एआरसी/ एनबीएफएसी/ एआईएफए-एयुएस/विनियुक्त लिपि/प्रतिबद्ध लिपियों के लिए 31.03.2022 की तिथि के अनुसार 50 करोड रुपये के निवेद के लिए उल्लेख भ अलग-अलग पावता माननड वाले उपरोक्त दो नवी के आवेदको के बीच एक संघ की स्थिति में, पावता की गणना रूप में उनके हिसके के अनुसार हो की जाएगी। विवरण वेबसाइट www.arc.in पर उल्लेख है या insolvency@arc.in पर ई-मेल द्वारा प्राप्त जा सकता है।
9. धारा 29ए के अधीन लागू अपेक्षता के मानक निगमित/लिखित पर उल्लेख है:	निगमित/लिखित वेबसाइटों पर उल्लेख है: www.arc.in , www.ibbi.gov.in या ई-मेल द्वारा insolvency@arc.in पर भंगा जा सकता है।
10. अभिलेखि के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम तिथि	29.08.2022
11. समानी रिजल्यूशन आवेदको के अंतिम सूची निगमन की तिथि	06.09.2022
12. अंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की अंतिम तिथि	11.09.2022 या उत्तरे पहले
13. समानी समाधान आवेदको की अंतिम सूची निगमन की तिथि	21.09.2022
14. समानी रिजल्यूशन आवेदको को सूचना शापन, इवेल्यूशन मैट्रिक्स तथा समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध के निगमन की तिथि	11.09.2022
15. रिजल्यूशन योजना के लिए अनुरोध, इवेल्यूशन मैट्रिक्स, सूचना शापन तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	अस्थायी सूची में समी संश्लिखित समाधान आवेदको ("वीआरपी") और उस पीआरए विनियने अंतिम सूची में उनके शामिल होने के हिसाब कांरपोरेट देनार है, उन्हें समाधान योजना आकषाकारण, सूचनांक मैट्रिक्स और सूचना शापन इवेल्यूटेड रूप से अनुरोध प्राप्त किया जाएगा। insolvency@arc.in पर ई-मेल भेजकर और जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16. रिजल्यूशन योजना को जमा करने की अंतिम तिथि	11.10.2022
17. रिजल्यूशन प्रेक्षनसल के पास समाधान योजनाओं की जमा करने का तरीका	ई-मेल द्वारा insolvency@arc.in या पंजीकृत पोस्ट/श्रीड पोस्ट या समाधान प्रेक्षर के पत्राचार पते पर सौलंबद लिखाई में ब्यवलिता रूप से
18. अनुमोदन के लिए च्याय निषेधन प्रक्रियांक के पास रिजल्यूशन योजना को जमा करने की अनुमतिपत्र तिथि	03.11.2022
19. रिजल्यूशन प्रेक्षनसल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम: श्री अनिल कोशरी पता: 409 अलंस भवन, 16 की गली, कांरट प्लेस, नई दिल्ली-110001, ई-मेल: insolvency@arc.in
20. रिजल्यूशन प्रेक्षनसल का नाम, पता तथा ई-मेल, जैसा कि शीड के पास पंजीकृत है	नाम: श्री अनिल कोशरी पता: 409 अलंस भवन, 16 की गली, कांरट प्लेस, नई दिल्ली-110001, ई-मेल: insolvency@arc.in
21. प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	उपरोक्तानुसार (क.सं. 20)
22. अधिक विवरण निगमित/लिखित पर या के पास उल्लेख है	निगमित/लिखित वेबसाइटों पर उल्लेख है: www.arc.in , www.ibbi.gov.in या ई-मेल द्वारा insolvency@arc.in पर भंगा जा सकता है।
23. फॉर्म-जी प्रेषाजन की तिथि	13.08.2022
अनिल कोशरी श्रीके विषयन लिमिटेड हेतु समाधान प्रेक्षर रजि. नं.: IBBI/PA-001/PA-00112/2017/18/10219 ई.ए. पं.सं.: 06.04.2023 पता: 409 अलंस भवन, 16 की गली, कांरट प्लेस, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: 011-45110111, ईमेल: insolvency@arc.in	

<div>फॉर्म-जी</div> <div>अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण</div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>(दिवाला और शोधन अमिता (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाल सामान्य प्रक्रिया) विनियमनवली, 2०16 के विनियम 368(4) के अधीन)</div>	
---	--

संबंधित विवरण	मैसर्स प्रैंको लिग्रोन लिमिटेड
1. कॉर्पोरेट देनदार का नाम	19-12-1995
2. कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	रसिदगार ऑफ कम्पनीन्ग, दिल्ली
3. उस अधिपरी का नाम, जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार निर्मित / पंजीकृत है	U74899DL1995PLC074764
4. कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पंजाम संस्था /संलिप्त देयता पंजाम संस्था	आरजेड-142, न्यू विष्णु गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110018
5. कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रामाणिकता (यदि कोई है) का पता	09-05-2022
6. कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिखला प्राप्त होने की तिथि	13-08-2022
7. अभिसंधि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की तिथि	संकरूप आवेदकों के लिए नूतनात पावता मानवंड (अकेले), संयुक्त रूप से या संग्र में। संकरूप प्रेषण के साथ संकरूप प्रेषण ("आपसी") यह पारदर्शक के लिए है: <ol style="list-style-type: none">निर्णय वर्ष 2021-2022 के लिए, बंटी ब्रह्मरोस्ट्र के लिए नवीनतम ऑडिटेड वित्तीय विवरण के अनुसार न्यूनतम नई - वर्ष 5 करोड़ रुपये और प्रारंभिक दस्तावेज द्वारा वित्तीय संस्थाओं सहित एआरसी / एमबीएससी / एआईएफ-एएमए /नियुक्त निधि/अतिरिक्त निधियों के लिए 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 50 करोड़ रुपये के निवेश के लिए उपलब्ध # अलग-अलग पावता मानवंड वाले उपरोक्त दो वर्गों के आवेदकों के बीच एक संस् की स्थिति में, पावता की गणना संस् में उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी। विवरण वेबसाइट www.ark.in पर उपलब्ध है या insolvency@ark.in पर ई-मेल द्वारा मांगा जा सकता है।
9. बारा 29ए के अधीन लागू अयोग्यता के मानक, निम्नलिखित पर उपलब्ध है:	निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है: www.ark.in, www.ibbi.gov.in या ई-मेल द्वारा insolvency@ark.in पर मांगा जा सकता है।
10. अभिसंधि के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम तिथि	29.08.2022
11. संघाती रिजॉल्यूशन आवेदकों के अन्तिम सूची निर्माण की तिथि	06.09.2022
12. अन्तिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की अंतिम तिथि	11.09.2022 या उससे पहले
13. संघाती समामान आवेदकों की अंतिम सूची निर्माण की तिथि	21.09.2022
14. संघाती रिजॉल्यूशन आवेदकों को सूचना ज्ञान, ईन्क्ल्यूजन भंडित्व तथा समामान योजनाओं के लिए अनुरोध के निर्माण की तिथि	11.09.2022
15. रिजॉल्यूशन योजना के लिए अनुरोध, ईन्क्ल्यूजन भंडित्व, सूचना ज्ञान तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	अपघाती सूची में सभी संघातित समामान आवेदकों ("पीआरए") और उन पीआरए किन्हीं अन्तिम सूची में उनके शामिल होने के खिलाफ बहिष्करण नहीं है, उन्हें समामान योजना आयोजनआपसी, मूल्यवान भंडित्व और सूचना ज्ञान इन्क्लुजिव रूप से अनुरोध प्रदान किया जाएगा। insolvency@ark.in पर ई-मेल केअकर और जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16. रिजॉल्यूशन योजना को जमा करने की अंतिम तिथि	11.10.2022
17. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के पास समामान योजनाओं को जमा करने का तरीका	ई-मेल द्वारा insolvency@ark.in पर या पंजीकृत पोस्ट /स्प्रीड पोस्ट या समामान पोस्टेयर के पत्राचार पते पर सौलंबत बिधायके में व्यक्तिगत रूप से
18. अनुमोदन के लिए न्याय निर्णय प्रक्रिकारी के पास रिजॉल्यूशन योजना को जमा करने की अनुमति तिथि	03.11.2022
19. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संस्था	नाम: श्री अजित कोसली पंजी. नं. IBBI/IPA/IP-P00112/2017-2018/10219
20. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के निर्देशों के अनुसार	नाम: श्री अजित कोसली पता: 409, चतुर्थ तल, अंनतल भवन, 16 के जी मार्ग, कर्नाट लेन, नई दिल्ली-110001, ई-मेल :insolvency@ark.in
21. रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	उपरोक्तानुसार (क.सं. 20)
22. अधिक विवरण निम्नलिखित पर या के पास उपलब्ध है	निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है: www.ark.in, या ई-मेल द्वारा insolvency@ark.in पर मांगा जा सकता है।
23. फॉर्म-जी के प्रकाशन की तिथि	13.08.2022

अविकल कोहली	
<div>फ्रैंको लिग्रोन लिमिटेड हेतु समामान पोस्टर</div>	
रवि. नं. IBBI/PA-001/IP-P00112/2017-18/10219 ए एक ए वृष 06.04.2023 पता: 409 अंनतल भवन, 16 केजी मार्ग, कर्नाट लेन, नई दिल्ली 110001 होमपेज: 011-45101111, ईमेल: insolvency@ark.in	

तिथि: 13-08-2022	
स्थान: नई दिल्ली	

वाहन बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

चिप किल्लत में कमी आने और उत्पादन सुधरने से यात्री वाहन बिक्री में तेजी आई है

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 12 अगस्त

सायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफेक्चरर्स (सायम) ने शुक्रवार को अपनी मासिक बिक्री संबंधित विज्ञप्ति में कहा कि जुलाई में घरेलू बाजार में सभी श्रेणियों के लिए वाहनों की दुलाई सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ी।

भारत में वाहन कंपनियां डीलरों के लिए वाहन दुलाई की गणना बिक्री के तौर पर करती हैं। कुल बिक्री कारों, वैन और यूटिलिटी वाहनों समेत यात्री कारों की मजबूत लोकप्रियता के साथ तेजी से बढ़ी। सेमीकंडक्टर की उपलब्धता में सुधार आने से यात्री वाहन (पीवी) निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। महीने के दौरान पीवी बिक्री एक साल पहले के 264,442 से 11 प्रतिशत बढ़कर 293,865 वाहन पर पहुंच गई, क्योंकि उत्पादन भी 333,369 वाहन से बढ़कर 358,888 हो गया।

बिक्री के मौजूदा आंकड़े में टाटा मोटर्स की बिक्री शामिल नहीं है, जो क्रम के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा मोटर्स के आंकड़े को भी शामिल किया जाए तो महीने के लिए कुल पीवी बिक्री पिछले साल के समान महीने के 311,947 वाहन के मुकाबले 324,050 होगी।

वाहन बिक्री पर एक नजर

सेगमेंट	जुलाई, 2021	जुलाई, 2022	सालाना बदलाव%
यात्री कारें	130,080	143,522	10.3
वैन	10,305	13,239	22.16
यूटिलिटी वाहन	124,057	137,104	10.51
कुल यात्री वाहन	264,442	293,865	11
तिपहिया वाहन	18,132	31,324	22.16
दोपहिया वाहन	1,260,140	1,381,303	9.6
कुल	1,542,714	1,706,492	10.6
<p><i>स्रोत: सायम</i></p>			

एसयूवी सेगमेंट में नए मॉडल पेश किए जाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक कलपुर्जों की आपूर्ति में सुधार तथा मजबूत मांग से भी दुनिया के पांचवें सबसे बड़े वाहन बाजार में पीवी बिक्री लगातार चौथे महीने में दमदार बनी हुई है। उधारी दरों में वृद्धि के बावजूद यह रझान देखा गया।

जुलाई 2022 ऐसा लगातार सातवां महीना था, जब मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के अनुमानित स्तर 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रही। आरबीआई समिति ने महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रीपो दर पिछले सप्ताह 50 आधार अंक तक बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत की। पहली तिमाही में यूटिलिटी वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ कुल पीवी

(कारों, वैन और यूवी समेत) बिक्री वित्त वर्ष 2019 की ऊंची बिक्री के आंकड़े को पार कर गई और वित्त वर्ष में इसके नई ऊंचाईयों पर पहुंचने की संभावना है।

सायम के महासचिव राजेश मेनन ने एक बयान में कहा कि तिपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि न्यून आधार की वजह से दर्ज की गई है और इन दो सेगमेंट के लिए बिक्री अभी भी 2006 तथा 2016 के मुकाबले काफी कम बनी हुई है।

उद्योग संगठन ने कहा है कि कुल वाहन बिक्री (वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर) 1,542,716 के मुकाबले जुलाई के दौरान बढ़कर 1,706,545 वाहन रही।

कंपनी ने कहा कि कम कर की दर के लाभ को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कर-देयता की पुनर्गणना की गई है। इसीलिए संशोधित कर गणना को ध्यान में रखने के बाद कर पश्चात लाभ में में बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी के कुल क्लिंकर उत्पादन में 28 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि सीमेंट की बिक्री 38 फीसदी बढ़कर 25 लाख टन हो गई, जबकि पिछले वर्ष यह 18 लाख टन थी। क्लिंकर की बिक्री 179,000 टन से मामूली अधिक थी जिसके कारण 26 लाख टन की कुल बिक्री हुई, जो 37 फीसदी का सुधार था।

बजाज इलेक्ट्रिकल्स का लाभ

बजाज इलेक्ट्रिकल्स का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ 41.19 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष अप्रैल-जून तिमाही के दौरान कंपनी को 24.97 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी बिक्री 42.25 फीसदी बढ़कर 1,202.10 करोड़ रुपये रही जो पिछले वर्ष समान अवधि में 845.04 करोड़ रुपये थी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का कुल

मेनन ने कहा कि एंट्री लेवल यात्री कारों, दोपहिया और तिपहिया के लिए बाजार में सुधार आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि रीपो दरों में तीन बार में हुई वृद्धि से वाहन ऋण महंगे हो जाएंगे, जिससे एंट्री लेवल के वाहनों की बिक्री में तेज सुधार मुश्किल हो जाएगा।

एनसीजे सेगमेंट के लिए घरेलू गैस की बड़ी मात्रा आवंटित करने के संबंध में सरकार का नया निर्णय सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे गैस कंपनियों को उत्पादन लागत काफी नीचे आएगी। मेनन ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, गैस कंपनियां लागत नरमी का पूरा लाभ सीएनजी कीमतें घटाकर ग्राहकों तक पहुंचाएंगी।’

चंडीगढ़

| **शनिवार**, 13 अगस्त 2022

पेटीएम को मानकों पर खरा उतरने की जरूरत

सुब्रत पांडा
मुंबई, 12 अगस्त

विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि पेटीएम अपने मर्चेट एवं पर्सनल लोन व्यवसाय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिजिटल उधारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रही है, लेकिन उसके बाय नाउ पे लैंटर (बीएनपीएल) व्यवसाय ‘पेमेंट पोस्टपेड’ को कुछ परिचालन संबंधित बदलाव लाने की जरूरत हो सकती है। मौजूदा समय में पेटीएम पोस्टपेड के तहत, ऋण सीधे तौर पर ग्राहक के खाते में मुहैया नहीं कराए जाते हैं बल्कि यह राशि एक नोडल अकाउंट में भेजी जाती है, जहां से भुगतान कंपनी इसे व्यवसायी के खाते में डालती है।

केंद्रीय बैंक के नए डिजिटल उधारी मानकों के अनुसार, सभी ऋण वितरण और पुनः भुगतान को उधारी सेवा प्रदाता (एलएसपी) या किसी अन्य थर्ड पार्टी के पूल अकाउंट के बगैर सिर्फ उधारकर्ता और विनियमित संस्था के बैंक खाते के बीच ही क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है।

आईसीआईसीआई सिन्क्योरीटीज ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा, ‘पेटीएम को पोस्टपेड उत्पादों के लिए परिचालन संबंधित बदलाव की जरूरत होगी। हालांकि प्रबंधन ने संकेत दिया है कि दिशा-निर्देश लागू करने योग्य हैं।’ मैक्वेरी रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, ‘बीएनपीएल व्यवसाय (पेटीएम पोस्टपेड, जिसका योगदान पहली तिमाही में वितरित ऋणों में 60 प्रतिशत था) के लिए ऋण मौजूदा समय में सीधे तौर पर ग्राहक के बैंक खाते में वितरित नहीं किए जाते हैं,

बजाज हिंदुस्तान को एनसीएलटी ले गया भारतीय स्टेट बैंक

पृष्ठ 1 का शेष

बजाज हिंदुस्तान शुगर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को बैंक से इस मसले पर कोई सूचना नहीं मिली है और बाजार की अटकलों पर कंपनी कुछ नहीं कहती। एसबीआई को इस बारे में गुरुवार को ईमेल भेजा गया था मगर खबर लिखे जाने तक उसका जवाब नहीं आया। बजाज हिंदुस्तान की 14 चीनी मिलें हैं, जो एक दिन में कुल 1.36 लाख टन गन्ना पर सकती हैं। उसकी छह डिस्टिलरी भी हैं, जिनमें रोजाना 800 किलोलीटर औद्योगिक अल्कोहल बनाया जा सकता है। मार्च, 2022 में समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी की आय 5,569 करोड़ रुपये रही थी और उसे 218 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि संयुक्त ऋणदाता फोरम को जारी 3,483.25 करोड़ रुपये मूल्य के वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों (ओसीडी) को धारक शेयर भाव के हिसाब से इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं।

एसीसी, अंबुजा के अधिग्रहण के लिए अदाणी को सीसीआई की मंजूरी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने अदाणी समूह की तरफ से हो रहे अंबुजा सीमेंट्स व एससीसी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी।

स्विस कंपनी होल्सिम के स्वामित्व वाली दोनों कंपनियों का अधिग्रहण मई में 10.5 अरब डॉलर यानी 81,339 करोड़ रुपये में किया गया, जिससे अदाणी समूह देश में

अल्ट्राटेक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया। प्रतिस्पर्धा आयोग ने शुक्रवार को कहा कि यह मंजूरी एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को दी गई, जो मॉरीशस में स्थापित एसपीवी है, और इसका नियंत्रण अदाणी परिवार के पास है। एसपीवी ने मई में ऑफशोर प्रवर्तक होल्डइंड इन्वेस्टमेंट की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार लागू किया।

बीएस

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट करेगी निवेश

सुब्रत पांडा

मुंबई, 12 अगस्त

रश्मि, -/

राणा इंद्र प्रताप सिंह

प्रबन्ध निदेशक

रश्मि, -/

राणा इंद्र प्रताप सिंह

प्रबन्ध निदेशक

रश्मि, -/

राणा इंद्र प्रताप सिंह

प्रबन्ध निदेशक

रश्मि, -/

राणा इंद्र प्रताप सिंह

प्रबन्ध निदेशक

रश्मि, -/

राणा इंद्र प्रताप सिंह

प्रबन्ध निदेशक

रश्मि, -/

राणा इंद्र प्रताप सिंह

प्रबन्ध निदेशक

रश्मि, -/

राणा इंद्र प्रताप सिंह

प्रबन्ध निदेशक

चंडीगढ़ संस्करण बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं.-22 व 49 ग्राउंड फ्लोर, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला-134115, हरियाणा से मुद्रित एवं एक्ससीओ 861, एनएससी, मनी माजरा, चंडीगढ़-160101 से प्रकाशित

संपादक : कैलाश नौटियाल
आवरणआई नं. MAHJIN/2008/24325
सॉफ्ट संपादक को lettershind@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं।
टेलीफोन – 033-22101314/1022/1600
फैक्स – 033-22101599

सबस्क्रिप्शन और संकुलेशन के लिए संपर्क करें...
सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी भी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
ईमेल- .subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें
REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं